

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 14—अक्टूबर 20, 2017 (आश्विन 22, 1939)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14—OCTOBER 20, 2017 (ASVINA 22, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2017

सं. 2/11/14—प्रशासन/358373—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्रीमती अर्चना वर्मा, आई.ए.एस. (एएम : 95) को आयोग में अपर सचिव (संयुक्त निदेशक स्तर) के पद पर लेवल 14 (वेतन बैंड रु. 37,400—67,000/— में ग्रेड वेतन 10,000/— के साथ) में दिनांक 01.09.2017 (पूर्वाह्न) से 06.02.2020 अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. के. महान्ती
अवर सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली—03, दिनांक 5 सितम्बर 2017

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2017/कार्मिक.1/844—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 के वेतनमान (67,700—2,08,700) में केओसुब में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके
1—286 GI/2017 (22045)

नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :-

अधिकारी का नाम (श्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पद ग्रहण की तिथि
जगपाल सिंह	व्यवस्था एवं क्रय शाखा बल मुख्यालय, नई दिल्ली	30.08.2017 (पूर्वाहन)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 11 सितम्बर 2017

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2017/कार्मिक.1/852—राष्ट्रपति, निम्नलिखित उपकमांडेंट एवं कमांडेंट (लोकल रैंक) को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रु. 78,800-2,09,200/-में केऔसुब में कमांडेंट के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर पदोन्नत करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर कमांडेंट में पद ग्रहण की तिथि
1	तुषार डी. शकारे	7वी. आ. वा. किस्तवाड	18.07.17 (अपराहन)
2	प्रताप भाऊसाहेब पुण्डे	एसपीएम होशंगाबाद	18.07.17 (अपराहन)
3	सुरेश चन्द्र	एसईसीएल बिलासपुर	19.07.17 (पूर्वाहन)
4	एस. के. श्रीवास्तव	बीएसपी भिलाई	31.07.17 (पूर्वाहन)
5	पंकज कुमार	ओएनजीसी अंकलेश्वर	18.07.17 (अपराहन)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2017/कार्मिक.1/854—सक्षम अधिकारी, के0औ0सु0 बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित उप कमांडेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से कमांडेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम (श्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
जी. भुवनेश कुमार	एयर पोर्ट, दक्षिण क्षेत्र, मुख्यालय चैन्नई	04.09.2017 (पूर्वाहन)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2017/कार्मिक.1/856—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक कमांडेंट (अग्नि) को वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रु. 67,700-2,08,700/-में केऔसुब में उप कमांडेंट (अग्नि) के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर उप कमांडेंट (अग्नि) में पद ग्रहण की तिथि
1	ओमवीर प्रसाद शर्मा	ओएनजीसी हजीरा	29.07.2017(पूर्वाहन)
2	नरेन्द्र	एफएसटीआई, हैदराबाद	28.08.2017(पूर्वाहन)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 19 सितम्बर 2017

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2017/कार्मिक.1/479—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक को वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 के वेतन मान में (44,900-1,42,400) केऔसुब में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई

तिथि से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:-

अधिकारी का नाम (श्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में पद ग्रहण की तिथि
सुरिन्द्र पाल सिंह	आई. एण्ड पी. शाखा, बल मुख्यालय नई दिल्ली	11.09.2017(पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-38013/01/अ.सू/रा.प.अ./2017/कार्मिक.1/482—राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षक (अनु०) को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु. 56,100—1,77,500/- में केओसुब में सहायक कमाण्डेंट (जेएओ) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम (श्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेंट/जेएओ के रूप में पद ग्रहण की तिथि
रोशन थापा	समूह मुख्यालय चन्डीगढ़	11.09.2017 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 29 सितम्बर 2017

सं. 5/1/2017-सी.पी.आई.—अगस्त, 2017 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 285 (दो सौ पचासी) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

अमृत लाल जांगिड़
उप निदेशक

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 3 अप्रैल 2017

सं. 7048/एसपी/ए-32013/जेडी(कार्मिक एवं प्रशा.)/डीपीसी/2017-18/19ए—राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित उप निदेशकों (कार्मिक एवं प्रशासन) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के पद पर इसी विभाग में नियमित आधार पर ग्रेड पे ₹ 7600/- सहित, पे बैंड-3, वेतनमान ₹ 15,600—39,100/- [7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स टेबल के लेवल 12] में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से प्रभावी, आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	संयुक्त निदेशक (का. एवं प्रशा.) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	श्री हारा मोहन मिश्रा	01.04.2017 (पूर्वाह्न)
2	श्री कार्तिकेय वर्मा	01.04.2017 (पूर्वाह्न)

एस. दास रॉय
उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 17 अगस्त 2016

सं. 7131/एसपी/ए-12025/1-भूवै./अधिसूचना/10/19ए—माननीय राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावी और अन्य विवरण के अनुसार वेतन बैंड-3: रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5400/- में

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर आगामी आदेश तक अस्थायी आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी पहचान सं.	अधिकारी (रियों) का (के) नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	121311	श्रीमती जयश्री श्याम मेशराम	30.04.2013 (पूर्वाह्न)
2.	121523	श्रीमती शिल्पा पुरुषोत्तम मांडलिक	11.12.2013 (पूर्वाह्न)

ए. के. मंडल
सहायक निदेशक (का. एवं प्र.)
कृते महानिदेशक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)
“प्रारूप संख्या एसटीके-6”

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

चंडीगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2017

सं. 869—(1) इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २४८(२) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित कंपनियों ने कंपनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरम्भ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती २ वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ४५५ के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार से निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

1	यज बिज़नेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	G40781023
2	श्री गणपति स्टिच एंड स्टाइल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	G40788523
3	माधव एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	G40780553
4	ऑर्बिट टेक्निकल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G41028986
5	पीवीएस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	G41029745
6	कैरियर डॉक्टर एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G41018227
7	पीपल प्रोग्रेस प्राइवेट लिमिटेड	G40894610
8	एल एंड डी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	G41097791
9	एफ्रोन रेनवाबलेस प्राइवेट लिमिटेड	G41159229
10	एसजीपीटीसी प्राइवेट लिमिटेड	G41237421
11	मनीषा इसा दस् मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड	G41280454
12	अगस्त पेरिफेरल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	G41294414

13	दसरो सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G40982738
14	आईक्लाउड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G4155763
15	नैमिष लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	G41260258
16	हिल रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड	G41394487
17	ओरिएण्टल कॉन्टैक्ट्स एंड री स्ट्रक्चरस प्राइवेट लिमिटेड	G41397217
18	सर्वेश्वर ऑर्गेनिकस प्राइवेट लिमिटेड	G41254525
19	सर्गी इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड	G41440086
20	जिओलॉजिस्ट रिसोर्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	G41452590
21	आईआईए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	G41552365
22	कक्कर संस प्राइवेट लिमिटेड	G41506692
23	अर्गोस इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड	G41398850
24	एडकनेक्ट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	G41546847
25	नचिकेता एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G41556101
26	टेक्टक्स प्राइवेट लिमिटेड	G41563693
27	विशंस प्रेसेंटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G41587726
28	स्विन्नुस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G41645896
29	जेकटेक होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	G41645854
30	एसजीए कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	G41649476
31	क्वीवर रिसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G41692690
32	पेलिकन इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	G41702895
33	सिडाना स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड	G41619792
34	स्मार्टवे इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G41835349
35	एडीएपी अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	G41835760
36	आर एस एल एविएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G41419110
37	आर एस एल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G41314030
38	दोई रेहाब प्राइवेट लिमिटेड	G41882929
39	एए आर एस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G41802810
40	लवप्रीत ट्रांसपोर्ट एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	G41928157
41	वेबक्रैडेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G41896028
42	टवेंटी फर्स्ट सलूशन ऑनलाइन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	G42128389
43	आंध्रा अग्नि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	G42222760
44	पी.आर. वाइट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	G42322222
45	एडी क्वैड एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	G42322131
46	ए टी सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G41863077
47	सालासर एक्वा एनर्जी लिमिटेड	G42425744
48	सिंगार लैम्प्स लिमिटेड	G42429605
49	दीपक फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G42453266

50	लीगल सोल्यूशन्स सोलिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G42468470
51	कॉन्नेक्शन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G42187062
52	एनआरआई एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	G42465054
53	बीके इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	G42522367
54	लवली हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड	G42543694
55	अप्रोचेन्ट इन्फो टेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G42575316
56	के के के अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	G42643932
57	संदल पैलेस प्राइवेट लिमिटेड	G42532127
58	एम्एम्आर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	G42787895
59	दशमेश नीट फैब प्राइवेट लिमिटेड	G42772251
60	जिनी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स एंड फसिलिटेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G42662569
61	करुणा कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	G42875153
62	सीपीबी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G42900738
63	एनिमेटेड कोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G42838540
64	स्माल्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड	G42525774
65	वेलोसिटी इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G43048552
66	हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड	G42922948
67	मालवा म्यूच्युअल बेंनिफिट फण्ड लिमिटेड	G43091891
68	आर एंड डी डेंटमार्क प्राइवेट लिमिटेड	G42962175
69	आर एस एल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	G42640052
70	अनन्य एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	G43169713
71	श्री भोले नाथ आयल एंड फैट्स प्राइवेट लिमिटेड	G43181304
72	आदित्य टेलीकॉम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G43252667
73	ईस्ट वर्क डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G43256478
74	अच्युत कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	G43287820
75	फुलक्रम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G43300938
76	लक्ष्मी शी-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड	G43249721
77	विद्यासाँ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	G43356005
78	हेल्थ सिटी प्राइवेट लिमिटेड	G43019231
79	वूडलारक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	G43426857
80	चंद्रिला अगरोनेट प्राइवेट लिमिटेड	G43458827
81	बप इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	G43465814
82	दिलराज रिसॉर्ट्स लिमिटेड	G43474295
83	सहज आईलट्स अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	G42899435
84	मिसरे लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड	G43490028
85	जय पारवती रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G43502913
86	आशीष ट्रेवल एंड टूर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	G43507458

87	विरि फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	G43529874
88	प्रोएक्टिव ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	G43390772
89	अलेक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	G43639558
90	क्लियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G43715770
91	आईआईईटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	G43758382
92	वर्ल्डवाइड फूडपार्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	G43801695
93	जुपिटर पौल्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	G43841469
94	मुक्त डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G43806934
95	सेवंथ स्ट्रीट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G43597087
96	भगवती लैक्टो अग्रि सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G43858075
97	एम्फिसिएंट प्रिन्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G43864040
98	रिआना रेटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	G42902239
99	डी डी ए होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	G43868090
100	परफेक्ट होसेस प्राइवेट लिमिटेड	G43936525
101	केजी स्टैंडर्ड्स एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	G43891803
102	फाल्कन इन्फोबाइट प्राइवेट लिमिटेड	G44017242
103	राधे राधे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	G44019776
104	पुटअप ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	G44032514
105	बुडस्टॉक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	G44032050
106	कशिश एगोइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	G44046993
107	ब्रॉड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G44046340
108	के डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G44063139
109	केन एजुकेशन वीसा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G44066918
110	बाल्ज़ हेल्थ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	G44070423
111	विज़न एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड	G44003742
112	स्वामी यन्स प्राइवेट लिमिटेड	G44190247
113	अंगुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	G44215770
114	सैफरनस्टार प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G44224996
115	होली फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G43897057
116	होलिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड	G43897743
117	प्रो -पैक क्लोसूरेस प्राइवेट लिमिटेड	G44264703
118	दुग्गल ऑटोव्हील्स प्राइवेट लिमिटेड	G44140457
119	कांडला फूड रिफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड	G44367860
120	इमली स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड	G44305555
121	गौरी मर्कटाइल प्राइवेट लिमिटेड	G44476133
122	ग्रेवाल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G44540813
123	ओएसिस रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G44559623

124	इबेक्स लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	G44630002
125	मैप्रो बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G44651750
126	आरसीआई नेटमारत प्राइवेट लिमिटेड	G44696276
127	कलरचैम कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G44796688
128	गिल्ड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	G44939999
129	जीएनएस अग्रि फूड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G44989424
130	अरहान एम्पायर्स प्राइवेट लिमिटेड	G45078268
131	दादरा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	G45137106
132	एस जे अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	G0186582
133	रोबिन मैकेनिकलस प्राइवेट लिमिटेड	G45250727
134	श्री मातेश्वरी हाइजीनिक प्राइवेट लिमिटेड	G45251832
135	हाइजीन कंस्यूमर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	G45100401
136	मार्शल फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	G45319894
137	जेएलपीटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड	G45322278
138	जेएलपीटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	G45322856
139	तनिष्का कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G45329091
140	लुधिअना फाउंड्री क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड	G45345972
141	वाह बाबा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G45393287
142	मिड टाउन फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	G45461514
143	माउंटेन ट्रेडिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड	G45360310
144	घर बुएर प्राइवेट लिमिटेड	G45554706
145	वशिष्ठ अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	G45587078
146	मेगास्टार एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	G45635422
147	एफिनिटी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	G4564338
148	आईआईएलएम् वोकेडू प्राइवेट लिमिटेड	G45771367
149	सेवन सीज एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G45905924
150	ननकाना साहिब बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	G45389665
151	वर्नी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G45979689
152	सोल एयर पावर प्राइवेट लिमिटेड	G45993896
153	बेला एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G45990611
154	गोल्डन ईगल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	G46003273
155	हाई ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	G46003596
156	लुधिअना फिकाप प्राइवेट लिमिटेड	G46003018
157	मोरिंडा फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G46004123
158	प्रीत क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	G46004214
159	स्टैनचार्ट फिकाप प्राइवेट लिमिटेड	G46004529
160	ओज़ोहेस्ट बिल्डर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G46014353

161	मौदगिल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	G45685401
162	जीजी एंड केपी कलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	G46126744
163	स्किल्लसेण्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड	G46179859
164	सिंगला सुर्गिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	G46231700
165	अग्नीणीर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	G46323754
166	निर्वाण करियर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	G46405437
167	राजू एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	G46440939
168	कजेम्बे इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड	G46514345
169	एन. गेन अलगा प्राइवेट लिमिटेड	G46443560
170	नेक्सजेन एक्सप्रेस वेज़ प्राइवेट लिमिटेड	G46443610
171	पैटागन स्कॉट्स सिक्योरिटी लिमिटेड	G46548754
172	इन्सिपिएंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G46594560
173	वीरतुओसो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G46594743
174	इनटेक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	G46665410
175	आर जी रियल एस्टेट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G46725859
176	अरनेजा डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	G46898870
177	शाइन स्कुआरेफिनेटेक प्राइवेट लिमिटेड	G46618096
178	हिम कॉम फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G46617411
179	विजौर बुसिनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G46926028
180	इनोवेटिव आईटी इनिटियटिवस प्राइवेट लिमिटेड	G47220843
181	भनोट रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	G47275623
182	एवीएएम इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	G47317961
183	जेटी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड	G47346515
184	जी एस मोटरवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	G47266515
185	चंडीगढ़ फ्लाइंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड	G47426804
186	डीबीएन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	G47634308
187	कजेम्बे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	G47659008
188	स्वगुण मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड	G47691860
189	ग्लोबल इंजिनीयर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	G47693783
190	बटाला इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	G47759436
191	फ्यूचर विज़न कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	G47784772
192	कैट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G47803960
193	मनसा चेमटेक प्राइवेट लिमिटेड	G47853445
194	लाज कोलोनिज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	G47974209
195	ATTIRE अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड	G47991633
196	जी ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	G48029565
197	रूटेड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G48029805

198	छन्नी फार्म्स एंड एगो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	G47915186
199	मलोट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	G47688916
200	रफ्तार टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G48075592
201	एस.टी.बी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	G48182349
202	डोकेदित टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	G48497820
203	शिव स्पिनर्स लिमिटेड	G48501639
204	किंग मेकर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G48511075
205	इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट टू कैपलिश ह्यूमन पोर्टेशियल प्राइवेट लिमिटेड	G48625917
206	बालाजी रियल्टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G48608996
207	गीन एंड क्लीन फसिलिटेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	G48685018
208	केएन लैंड डेवलपमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड	G48796841
209	आपरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G48838650
210	खत्री जेवेल्लेर्स प्राइवेट लिमिटेड	G48961502
211	बाबाजी ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड	G49026503
212	पिन पॉइंट ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	G49177231
213	दोसे एगो मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	G49258924
214	नीट एन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	G49211311
215	शॉप स्वीटनेस प्राइवेट लिमिटेड	G49258262
216	अन्नोउंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G49258817
217	नॉर्थर्न डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49217854
218	३ ताल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	G49440902
219	जेडटाउन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	G49401771
220	जेडटाउन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49401755
221	जेडटाउन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	G49401243
222	जेडटाउन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड	G49401037
223	जेडटाउन कोलोनिजेर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49401029
224	जेडटाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49401136
225	जेडटाउन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	G49401318
226	जेडटाउन होम्स प्राइवेट लिमिटेड	G49400468
227	जेडटाउन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	G49400203
228	जेडटाउन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	G49400617
229	जेडटाउन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G49399843
230	जेडटाउन प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49400294
231	जेडटाउन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	G49400633
232	जेडटाउन रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	G49399934
233	जेडटाउन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	G49401953
234	जेडटाउन रॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49400328

235	जेडटाउन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	G49400062
236	जेडटाउन स्त्रुक्टुरेस प्राइवेट लिमिटेड	G49400484
237	जेडटाउन टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	G49400500
238	जेडटाउन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49399959
239	डिफरेंट स्ट्रोकसडिजाइस प्राइवेट लिमिटेड	G49512031
240	जेन्सिस इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड	G49629173
241	एलिएन्ट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	G49668585
242	लॉरेल्स बायो केयर प्राइवेट लिमिटेड	G49676083
243	हायर एंड ग्रेवाल हॉस्पिटैलिटी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड	G49691264
244	अमृत एरलिंग्स चंडीगढ़ प्राइवेट लिमिटेड	G49734700
245	ADVISORS ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	G49771728
246	आर्टेक्स कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	G49829302
247	बी एच एस होम फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड	G50062959
248	डिओग्रैण्ड इन्फोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G50104033
249	बंसल करियर एज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G50120575
250	वीएलसी टुटोरिअल्स प्राइवेट लिमिटेड	G50181379
251	सहदेव इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	G50230309
252	ओंकार कैपिटल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड	G50265891
253	एस के स्टील्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G50325273
254	मोहिंद्र कैपिटल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	G50368083
255	संगरो इंफ्रा लिमिटेड	G50425149
256	सोलैरे अर्क साइंस प्राइवेट लिमिटेड	G50343060
257	प्रकृत्यै फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	G50498328
258	आईपलक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G50505064
259	विक टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	G50512086
260	दिलबाघ सोन पतीसा प्राइवेट लिमिटेड	G50581628
261	रामा कोटगीन प्राइवेट लिमिटेड	G50700038
262	सीमार्क इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	G50713239
263	वर्टिगो रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	G50752427
264	आई. आई. जी. एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	G50781624

सत्य पाल सिंह
उप कंपनी रजिस्ट्रार
पंजाब एवं चंडीगढ़

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 13th September 2017

No. 2/11/14-Admn/358373—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Smt. Archana Varma, IAS (AM : 95) as Additional Secretary (JS level) in the Commission in the Level 14 (Pay Band of Rs. 37400—67000/- with Grade Pay of Rs. 10000/-) with effect from the forenoon of 1st September 2017 for a period upto 06.02.2020 or till further order whichever is earlier.

P.K. MOHANTY
Under Secretary (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTOR GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-03, the 5th September 2017

No. E-38013/01/NOTI./GOs/2016/PERS-1/844—The President is pleased to appoint the following Section Officer on regular promotion to the rank of Sr. Administrative Officer in the Pay Matrix Level-11 (Rs. 67,700—2,08,700/-) in CISF with effect from the date noted against him :—

Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Sr. Administrative Officer on regular basis
JAG PAL SINGH	Provisioning & Procurement Branch FHQRs. New Delhi	30.08.2017/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 11th September 2017

No. E- 38013/01/NOTI./GOs/2017/Pers.I/852—The President is pleased to appoint the following Dy. Commandants & Commandants (Local Rank), on regular promotion to the rank of Commandants/Exe in the pay Matrix Level-12 Rs. 78,800—2,09,200/- in CISF with effect from the date noted against them :—

S. No.	Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandants/Exe on regular basis
1.	TUSHAR D. SAKHARE	7 TH RES BN KISTWAR	18.07.2017(AN)
2.	PRATAP BHAUSAHEB PUNDE	SPM HOSHANGABAD	18.07.2017(AN)
3.	SURESH CHANDER	SECL BILASPUR	19.07.2017(FN)
4.	S.K.SRIVASTAVA	BSP BHILAI	31.07.2017(FN)
5.	PANKAJ KUMAR	ONGC ANKLESHWAR	18.07.2017(AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-38013/01/NOTI./GOs/2017/PERS.I/854—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Commandants/Exe to the following Deputy Commandants/Exe of CISF, with effect from the date noted against him :—

Name Of Officer (Shri)	Office/Unit Where Assumed The Charge	Date of Assumption of Charge As Commandants (Local Rank)
G. BHUVANESH KUMAR	AP SZ HQRS. CHENNAI	04.09.2017/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E.38013/01/NOTI./GOs/2017/PERS.I/856—The President is pleased to appoint the following Asstt. Commandant (Fire) on regular promotion to the rank of Deputy Commandant (Fire) in the Pay Matrix Level-11 Rs. 67,700—2,08,700/- in CISF with effect from the date noted against them :—

S. No.	Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Commandant (Fire) on regular basis
1	OMVIR PRASAD SHARMA	ONGC HAZIRA	29.07.2017/FN
2	NARENDER	FSTI HYDERABAD	28.08.2017/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

—
The 19th September 2017

No. E-38013/01/NOTI./GOs/2016/PERS-1/479—The President is pleased to appoint the following Assistant on regular promotion to the rank of Section Officer in the pay Matrix Level-7 (44,900—1,42,400) in CISF with effect from the date noted against him :—

Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Section Officer on regular basis
SURINDER PAL SINGH	I&P BRANCH FHQR.NEW DELHI	11.09.2017/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No.E-38013/01/NOTI./GOs/2017/PERS-1/482—The President is pleased to appoint the following Inspector (Min), on regular promotion to the rank of Assistant Commandant (JAO) in the pay Matrix Level-10 Rs. 56,100—1,77,500/- in CISF with effect from the date noted against him :—

Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC (JAO) on regular basis
ROSHAN THAPA	GROUP HQRS CHANDIGARH	11.09.2017/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 29th September 2017

No. 5/1/2017-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 remained stationary at 285 (two hundred eighty five) for the month of August, 2017.

AMRIT LAL JANGID
Deputy Director

MINISTRY OF MINES

(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 3rd April 2017

No. 7048/SP/A-32013/JD(P&A)/DPC/2017-18/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Deputy Directors (P&A), Geological Survey of India to the post of Joint Director (P&A) on promotion as regular basis in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- on PB-3, with Grade Pay of

Rs. 7600/- [Level 12 of Pay Matrix Table of 7th CPC] in the same Department with effect from the date as shown against each until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Joining in the post of Joint Director (P&A)
1.	Shri Hara Mohan Mishra	01.04.2017(FN)
2.	Shri Kartikeya Verma	01.04.2017(FN)

S. DAS ROY
Deputy Director (P&A)
for Director General

Kolkata-700 016, the 17th August 2016

No. 7131/SP/A-12025/1- Geol/Notification/10/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band-3, Rs. 15600—39100/- with Grade Pay Rs. 5400/- (Pre-revised) temporary capacity with effect from the date and other details as shown against each until further orders :—

Sl. No.	EM. ID No.	Name of the Officers	Date of Appointment
1.	121311	Smt. Jayshree Shyam Meshram	30.04.2013(FN)
2.	121523	Smt. Shilpa Purushottam Mandlik	11.12.2013(FN)

A.K. MONDAL
Asstt. Director (P & A)
for Director General

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)
FORM NO.STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 in respect of:

Chandigarh, the 13th September 2017

No. 869—(1)Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the under mentioned companies under section 248(2) of the Companies act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company (ies) have obtained the status of dormant company, but it/they not wish to continue its/their registration as companies and have, therefor, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the under mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above with thirty days from the date of publication of this notice :—

1	YAGYA BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED	G40781023
2	SRI GANPATI STITCH AND STYLE OVERSEAS PRIVATE LIMITED	G40788523
3	MADHAV ESTATES PRIVATE LIMITED	G40780553
4	ORBIT TECHNICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G41028986

5	PVS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	G41029745
6	CAREER DOCTOR HR SERVICES PRIVATE LIMITED	G41018227
7	PEOPLE PROGRESS PRIVATE LIMITED	G40894610
8	L & D BUILDERS PRIVATE LIMITED	G41097791
9	ENFRON RENEWABLES PRIVATE LIMITED	G41159229
10	SGPTC PRIVATE LIMITED	G41237421
11	MANISHA ISA DASS MEDIA HOUSE PRIVATE LIMITED	G41280454
12	AUGUST PERIPHERALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	G41294414
13	DASRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G40982738
14	ICLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED	G4155763
15	NAMISH LAND & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	G41260258
16	HILL RETREATS PRIVATE LIMITED	G41394487
17	ORIENTAL CONTRACTS AND RESTRUCTURES PRIVATE LIMITED	G41397217
18	SARVAISHWAR ORGANICS PRIVATE LIMITED	G41254525
19	SARGON ELECTRIC PRIVATE LIMITED	G41440086
20	GIOTTI RESTAURANTS HOLDINGS PRIVATE LIMITED	G41452590
21	IIA EDUCATION PRIVATE LIMITED	G41552365
22	KAKKAR SONS PRIVATE LIMITED	G41506692
23	ARGOS IMMIGRATION PRIVATE LIMITED	G41398850
24	EDKNECT LEARNING PRIVATE LIMITED	G41546847
25	NACHIKETA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	G41556101
26	TEKTRAX PRIVATE LIMITED	G41563693
27	VISIONS PRESENTATIONS PRIVATE LIMITED	G41587726
28	SWINNUS INDIA PRIVATE LIMITED	G41645896
29	ZECOTEK HOLDINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED	G41645854
30	SGA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	G41649476
31	QUIVER RESOURCES SERVICES PRIVATE LIMITED	G41692690
32	PELICON INFRABUILD PRIVATE LIMITED	G41702895
33	SIDANA STUDIES PRIVATE LIMITED	G41619792
34	SMARTWAY IMMIGRATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	G41835349
35	ADAP ALLOYS PRIVATE LIMITED	G41835760
36	RSL AVIATIONS PRIVATE LIMITED	G41419110
37	RSL HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED	G41314030
38	DOI REHAB PRIVATE LIMITED	G41882929
39	AARS MARKETING PRIVATE LIMITED	G41802810
40	LOVEPREET TRANSPORT AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED	G41928157
41	WEBCREDENCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G41896028
42	TWENTY FIRST SOLUTION ONLINE TRADE PRIVATE LIMITED	G42128389
43	ANDHRA AGRI SEEDS PRIVATE LIMITED	G42222760

44	P.R. WHITE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	G42322222
45	AD QUAD ADVERTISING PRIVATE LIMITED	G42322131
46	A T SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G41863077
47	SALASAR AQUA ENERGY LIMITED	G42425744
48	SHINGAAR LAMPS LIMITED	G42429605
49	DEEPAK FRUIT AND VEGETABLE MERCHANTS PRIVATE LIMITED	G42453266
50	LEGAL SOLUTIONS SOLIATORS PRIVATE LIMITED	G42468470
51	KONNECTIONS SERVICES PRIVATE LIMITED	G42187062
52	NRI ESTATES PRIVATE LIMITED	G42465054
53	BEEKAY INSTITUTE OF MEDICAL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	G42522367
54	LOVELY HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED	G42543694
55	APPROCENT INFO TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G42575316
56	KKK ALLOYS PRIVATE LIMITED	G42643932
57	SANDAL PALACE PRIVATE LIMITED	G42532127
58	MMR TRADING PRIVATE LIMITED	G42787895
59	DASHMESH KNIT FAB PRIVATE LIMITED	G42772251
60	JINEE EDUCATIONAL CONSULTANTS & FACILITATORS PRIVATE LIMITED	G42662569
61	KARUNA CASTINGS PRIVATE LIMITED	G42875153
62	CPB HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED	G42900738
63	ANIMATED CODE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G42838540
64	SMALT TECH PRIVATE LIMITED	G42525774
65	VELOCITY INVESTMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G43048552
66	HINDUSTAN AUTOZONE PRIVATE LIMITED	G42922948
67	MALWA MUTUAL BENEFIT FUND LIMITED	G43091891
68	R & D DENTMARK PRIVATE LIMITED	G42962175
69	RSL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	G42640052
70	ANANYA AGRO FOODS PRIVATE LIMITED	G43169713
71	SHREE Bhole NATH OIL AND FATS PRIVATE LIMITED	G43181304
72	ADITYA TELECOM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G43252667
73	EAST WORK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G43256478
74	ACHYUT CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	G43287820
75	FULCRUM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	G43300938
76	LAKSHMI RE-ROLLERS PRIVATE LIMITED	G43249721
77	VIDYASON TRADERS PRIVATE LIMITED	G43356005
78	HEALTH CITY PRIVATE LIMITED	G43019231
79	WOODLARK TRAVELS PRIVATE LIMITED	G43426857
80	CANDRILA AGRONET PRIVATE LIMITED	G43458827
81	BAP INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED	G43465814
82	DILRAJ RESORTS LIMITED	G43474295
83	SEHAJ IELTS ACADEMY PRIVATE LIMITED	G42899435
84	MYSORE LUBRICANTS & OILS PRIVATE LIMITED	G43490028

85	JAI PARVATI RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	G43502913
86	ASHISH TRAVEL & TOURS (INDIA) PRIVATE LIMITED	G43507458
87	VIRI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	G43529874
88	PROACTIVE OVERSEAS PRIVATE LIMITED	G43390772
89	ALEX HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	G43639558
90	CLEAR INDIA PRIVATE LIMITED	G43715770
91	IJET EDUCATION PRIVATE LIMITED	G43758382
92	WORLDWIDE FOODPARK INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	G43801695
93	JUPITER POULTRIES PRIVATE LIMITED	G43841469
94	MUKT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G43806934
95	SEVENTH STREET EXPORTS PRIVATE LIMITED	G43597087
96	BHAGWATI LACTO AGRI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G43858075
97	EFFICIENT PRINTECK SERVICES PRIVATE LIMITED	G43864040
98	RIANA RETAILS PRIVATE LIMITED	G42902239
99	DDA HOLDING PRIVATE LIMITED	G43868090
100	PERFECT HOSES PRIVATE LIMITED	G43936525
101	KJEE STANDARDS & SOFTWARE PRIVATE LIMITED	G43891803
102	FALCON INFOBYTE PRIVATE LIMITED	G44017242
103	RADHE RADHE HOSPITALITY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	G44019776
104	PUTUP ONLINE MEDIA PRIVATE LIMITED	G44032514
105	WOODSTOCK HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	G44032050
106	KASHISH AGROINFRA PRIVATE LIMITED	G44046993
107	BROAD POWER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	G44046340
108	KAY DIGITAL TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	G44063139
109	KEN EDUCATION VISA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	G44066918
110	BALZ HEALTH SYSTEMS PRIVATE LIMITED	G44070423
111	VISION EXPO PRIVATE LIMITED	G44003742
112	SWAMI YARNS PRIVATE LIMITED	G44190247
113	ANGUL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	G44215770
114	SAFFRONSTAR PROJECTS PRIVATE LIMITED	G44224996
115	HOLI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	G43897057
116	HOLICITY INVESTMENT AND LEASING PRIVATE LIMITED	G43897743
117	PRO-PACK CLOSURES PRIVATE LIMITED	G44264703
118	DUGGAL AUTOWHEELS PRIVATE LIMITED	G44140457
119	KANDALA FOOD REFORMS PRIVATE LIMITED	G44367860
120	IMLI STUDIOS PRIVATE LIMITED	G44305555
121	GAWRI MERCANTILES PRIVATE LIMITED	G44476133
122	GREWAL LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G44540813
123	OASIS RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	G44559623

124	EIBEX LOGISTICS PRIVATE LIMITED	G44630002
125	MAPRO BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED	G44651750
126	RCI NETMART PRIVATE LIMITED	G44696276
127	COLORCHEM COATING PRIVATE LIMITED	G44796688
128	GILD PROPERTIES PRIVATE LIMITED	G44939999
129	GNS AGRI FOOD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G44989424
130	ARHAAN EMPIRES PRIVATE LIMITED	G45078268
131	DADRA TRAVELS PRIVATE LIMITED	G45137106
132	S J ALLOYS PRIVATE LIMITED	G0186582
133	ROBIN MECHANICALS PRIVATE LIMITED	G45250727
134	SHREE MATESHWARI HYGIENIC PRIVATE LIMITED	G45251832
135	HYGIENE CONSUMER PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	G45100401
136	MARSHAL FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	G45319894
137	JLPT FILMS PRIVATE LIMITED	G45322278
138	JLPL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	G45322856
139	TANISHKA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	G45329091
140	LUDHIANA FOUNDRY CLUSTER PRIVATE LIMITED	G45345972
141	WAH BABA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	G45393287
142	MID TOWN FARMERS PRIVATE LIMITED	G45461514
143	MOUNTAIN TRADING HOUSE PRIVATE LIMITED	G45360310
144	GHAR BUYER PRIVATE LIMITED	G45554706
145	VASHISHTHA ALLOYS PRIVATE LIMITED	G45587078
146	MEGASTAR ESTATES PRIVATE LIMITED	G45635422
147	AFFINITY GOLD PRIVATE LIMITED	G4564338
148	IILM VOCEDU PRIVATE LIMITED	G45771367
149	SEVEN SEAS EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED	G45905924
150	NANKANA SAHIB BUS SERVICE PRIVATE LIMITED	G45389665
151	VERNE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G45979689
152	SOLE AIR POWER PRIVATE LIMITED	G45993896
153	BELLA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	G45990611
154	GOLDEN EAGLE IUPEX PRIVATE LIMITED	G46003273
155	HIGH GROWTH CAPITAL PRIVATE LIMITED	G46003596
156	LUDHIANA FINCAP PRIVATE LIMITED	G46003018
157	MORINDA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	G46004123
158	PREET CREDIT AND CAPITAL PRIVATE LIMITED	G46004214
159	STANCHART FINCAP PRIVATE LIMITED	G46004529
160	OZOHEST BUILDERS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G46014353
161	MOUDGIL EXPORT PRIVATE LIMITED	G45685401
162	GG & KP COLLECTIONS PRIVATE LIMITED	G46126744

163	SKILLCENT EDUTECH PRIVATE LIMITED	G46179859
164	SINGLA SURGICALS PRIVATE LIMITED	G46231700
165	AGRINEER FOODS PRIVATE LIMITED	G46323754
166	NIRVANA CAREER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	G46405437
167	RAGU EXIM PRIVATE LIMITED	G46440939
168	KAZEMBE INSTITUTE OF ADVANCE STUDIES PRIVATE LIMITED	G46514345
169	N. GEN ALGO PRIVATE LIMITED	G46443560
170	NEXGEN EXPRESS WAYS PRIVATE LIMITED	G46443610
171	PENTAGON SCOTS SECURITY LIMITED	G46548754
172	INCIPIENCE MARKETING PRIVATE LIMITED	G46594560
173	VIRTUOSO MARKETING PRIVATE LIMITED	G46594743
174	INOTEC EXPORT PRIVATE LIMITED	G46665410
175	R G REAL ESTATES & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G46725859
176	ARNEJA DEVELOPERS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	G46898870
177	SHINE SQUAREFINTECH PRIVATE LIMITED	G46618096
178	HIM CAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	G46617411
179	VIGOUR BUSINES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G46926028
180	INNOVATIVE IT INITIATIVES PRIVATE LIMITED	G47220843
181	BHANOT REALESTATE PRIVATE LIMITED	G47275623
182	AVM INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	G47317961
183	JT EXIM PRIVATE LIMITED	G47346515
184	GS MOTORWORLD PRIVATE LIMITED	G47266515
185	CHANDIGARH FLYING SCHOOL PRIVATE LIMITED	G47426804
186	DBN TRADING PRIVATE LIMITED	G47634308
187	KAZEMBE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	G47659008
188	SWAGUN MEDIA AND PUBLISHING PRIVATE LIMITED	G47691860
189	GLOBAL ENGINEERS & BUILDERS PRIVATE LIMITED	G47693783
190	BATALA INVESTMENTS & ADVISORS PRIVATE LIMITED	G47759436
191	FUTURE VISION CORPORATION PRIVATE LIMITED	G47784772
192	KAT EXPORTS PRIVATE LIMITED	G47803960
193	MANSA CHEMTECH PRIVATE LIMITED	G47853445
194	LAAJ COLONIZERS PRIVATE LIMITED	G47974209
195	ATTIRE AFFORDABLE HOMES PRIVATE LIMITED	G47991633
196	G BROADCASTING PRIVATE LIMITED	G48029565
197	ROOTED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G48029805
198	CHHANNI FARMS AND AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	G47915186
199	MALOUT NETWORK PRIVATE LIMITED	G47688916
200	RAFTAR TECHNOLOGIES & SERVICES PRIVATE LIMITED	G48075592
201	S.T.B INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	G48182349

202	DOCEDIT TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED	G48497820
203	SHIV SPINNERS LIMITED	G48501639
204	KING MAKER MARKETING PRIVATE LIMITED	G48511075
205	INTERNATIONAL INSTITUTE TO ACCOMPLISH HUMAN POTENTIAL PRIVATE LIMITED	G48625917
206	BALAJI REALTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G48608996
207	GREEN & CLEAN FACILITATORS PRIVATE LIMITED	G48685018
208	KN LAND DEVELOPMENT AND LEASING LIMITED	G48796841
209	APRI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G48838650
210	KHATRI JEWELLERS PRIVATE LIMITED	G48961502
211	BABAJI DREAM HOMES PRIVATE LIMITED\	G49026503
212	PIN POINT BROADCASTING PRIVATE LIMITED	G49177231
213	DHOSE AGRO MILLS PRIVATE LIMITED	G49258924
214	KNIT N CRAFT PRIVATE LIMITED	G49211311
215	SHOP SWEETNESS PRIVATE LIMITED	G49258262
216	ANNOUNCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G49258817
217	NORTHERN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G49217854
218	3TAAL DIGITAL PRIVATE LIMITED	G49440902
219	ZTOWN BUILDCON PRIVATE LIMITED	G49401771
220	ZTOWN BUILDERS PRIVATE LIMITED	G49401755
221	ZTOWN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	G49401243
222	ZTOWN BUILDWELL PRIVATE LIMITED	G49401037
223	ZTOWN COLONIZERS PRIVATE LIMITED	G49401029
224	ZTOWN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G49401136
225	ZTOWN ESTATES PRIVATE LIMITED	G49401318
226	ZTOWN HOMES PRIVATE LIMITED	G49400468
227	ZTOWN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	G49400203
228	ZTOWN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	G49400617
229	ZTOWN PROJECTS PRIVATE LIMITED	G49399843
230	ZTOWN PROMOTERS PRIVATE LIMITED	G49400294
231	ZTOWN PROPERTIES PRIVATE LIMITED	G49400633
232	ZTOWN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	G49399934
233	ZTOWN REAL INFRA PRIVATE LIMITED	G49401953
234	ZTOWN REALTORS PRIVATE LIMITED	G49400328
235	ZTOWN REALTY PRIVATE LIMITED	G49400062
236	ZTOWN STRUCTURES PRIVATE LIMITED	G49400484
237	ZTOWN TOWNSHIP PRIVATE LIMITED	G49400500
238	ZTOWN VENTURES PRIVATE LIMITED	G49399959
239	DIFFERENT STROKES DESIGNS PRIVATE LIMITED	G49512031
240	GENSIS IMMIGRATION PRIVATE LIMITED	G49629173

241	ALLIANTT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	G49668585
242	LAURELS BIO CARE PRIVATE LIMITED	G49676083
243	HAYRE & GREWAL HOSPITALITY GROUP PRIVATE LIMITED	G49691264
244	AMRIT AIRLINKS CHANDIGARH PRIVATE LIMITED	G49734700
245	ADVISORS OVERSEAS PRIVATE LIMITED	G49771728
246	ARTEX COMPUTERS PRIVATE LIMITED	G49829302
247	BHS HOME FURNISHING PRIVATE LIMITED	G50062959
248	DIOGRAND INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G50104033
249	BANSAL CAREER EDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G50120575
250	VLC TUTORIALS PRIVATE LIMITED	G50181379
251	SAHDEV IMPEX PRIVATE LIMITED	G50230309
252	ONKAR CAPITAL GROWTH PRIVATE LIMITED	G50265891
253	S K STEELS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	G50325273
254	MOHINDRA CAPITAL PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	G50368083
255	SANGRO INFRA LIMITED	G50425149
256	SOLAIRE ARCO SCIENCE PRIVATE LIMITED	G50343060
257	PRAKRATYAI FARMS PRIVATE LIMITED	G50498328
258	IFLAX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G50505064
259	VIRKA TEXTILES PRIVATE LIMITED	G50512086
260	DILBAGH SOAN PATISA PRIVATE LIMITED	G50581628
261	RAMA COTGIN PRIVATE LIMITED	G50700038
262	SEIMARK INFOTECH PRIVATE LIMITED	G50713239
263	VARTIGO ROBOTICS PRIVATE LIMITED	G50752427
264	I.I.G. EDUCATION CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	G50781624

S. P. SINGH
Deputy Registrar of Companies
Punjab and Chandigarh

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

LAZAR

SAGAYA RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.10.14
10:07:21 +05'30'